

नागोर्नो-करबख क्षेत्र

प्रलिस के लयः

नागोर्नो-करबख क्षेत्र, INSTC

मेन्स के लयः

भारत के हतऱों पर देशों की नीतयऱों और राजनीतऱका प्रभाव

चर्चा में क्यऱों?

हाल ही में, आर्मीनयऱा और अज़रबैजान के बीच वर्षों से ववऱादतऱ रहे [नागोर्नो-करबख](#) (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र पर आर्मेनयऱा द्वारा संभावतऱ रयऱायतऱों का वरऱोध बढ़ गया है ।

- ववऱादतऱ क्षेत्र नागोर्नो-करबख को लेकर 27 सतऱंबर, 2020 को आर्मीनयऱा और अज़रबैजान के बीच पुनः संघर्ष शुरू हो गया था, जो वर्ष 1990 के दशक के बाद से सबसे घातक था ।

नागोर्नो-करबख क्षेत्रः

परचयः

- नागोर्नो-करबख एक **पहाडी और भारी वन क्षेत्र** है जसऱे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अज़रबैजान के हसऱसे के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
 - हालाँकऱ **मूल आर्मेनयऱाई जो वहाँ की अधकऱांश आबादी का गठन करते हैं**, अज़ेरी शासन (अज़रबैजान की कानूनी प्रणाली) को अस्वीकार करते हैं ।
- वर्ष 1990 के दशक में एक युद्ध के बाद अज़रबैजान की सेना को इस क्षेत्र से बाहर धकेल दयऱ जाने के पश्चात् ये मूल आर्मेनयऱाई लोग आर्मेनयऱा के समर्थन से नागोर्नो-करबख के प्रशासनकऱ नयऱंत्रण में रह रहे हैं ।

रणनीतकऱ महत्त्वः

- ऊर्जा संपन्न अज़रबैजान द्वारा पूरे काकेशस क्षेत्र ([काला सागर](#) और [कैस्पयऱन सागर](#) के बीच का क्षेत्र) में तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस एवं तेल पाइपलाइनों की स्थापना की गई है ।
- इनमें से **कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक** (सीमा के 16 कऱ्मी.) से गुज़रती हैं ।
- दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थतऱतऱ में **इन पाइपलाइनों को लक्षतऱ कयऱा जा सकता है**, जसऱसे बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र से होने वाली ऊर्जा आपूर्तऱ पर भी प्रभाव पड़ेगा ।



संघर्ष का कारण:

- **संघर्ष की पृष्ठभूमि:** संघर्ष को पूर्व-सोवियत के दौर में देखा जा सकता है जब यह क्षेत्र ओटोमन, रूसी और फारसी साम्राज्यों की सीमा के मलिन बट्टि पर था।
 - जब 1921 में अज़रबैजान और आर्मेनिया सोवियत गणराज्य बने तो रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने विवादित क्षेत्र में स्वायत्तता के बदले अज़रबैजान को नागोर्नो-करबख दे दिया।
 - 1980 के दशक में जैसे-जैसे सोवियत सत्ता कम होती गई नागोर्नो-करबख में अलगाववादी धाराएँ फरि से उभरीं। राष्ट्रीय सभा ने 1988 में क्षेत्र की स्वायत्तता को समाप्त करने और आर्मेनिया में शामिल होने के लिये मतदान किया।
 - हालाँकि अज़रबैजान ने ऐसी सूचनाओं को गोपनीय रखा जिसके परिणामस्वरूप एक सैन्य संघर्ष हो गया।
- **संघर्ष का तात्कालिक कारण:** सोवियत संघ के सन्निकट पतन की पृष्ठभूमि में सितंबर 1991 में नागोर्नो-करबख द्वारा स्वतंत्रता की स्व-घोषणा के परिणामस्वरूप अज़रबैजान और नागोर्नो-करबख के बीच युद्ध हुआ जो आर्मेनिया द्वारा समर्थित था।
- **युद्धविराम:** लंबे संघर्ष के बाद रूस की मध्यस्थता के माध्यम से 1994 में युद्धविराम समझौता हुआ। तब [सेयुरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन \(OSCE\) मिनस्क समूह](#), संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस की सह-अध्यक्षता में संघर्ष को हल करने के लिये अज़रबैजान तथा आर्मेनिया के साथ बड़े पैमाने पर काम किया गया है।
 - तब तक आर्मेनिया ने नागोर्नो-करबख पर कब्ज़ा कर लिया था और इसे अर्मेनियाई वदिरोहियों को सौंप दिया था।

भारत की भूमिका:

- आर्मेनिया के साथ भारत की मतिरता और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है, जो भारत द्वारा अज़रबैजान को सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिये प्रतिबंधित करेगी।
- अज़रबैजान में ONGC/OVL ने एक तेल क्षेत्र परियोजना में निवेश किया है, जबकि गैल (GAIL) LNG में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहा है।
 - अज़रबैजान की अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय [उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरडोर \(INSTC\)](#) मार्ग पर पड़ती है, जो भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ता है।
 - यह कॉरडोर [बाकू-तबलिसी-कार पैसेंजर और फ्रेट रेल लकि](#) के माध्यम से भारत को तुर्की से भी जोड़ सकता है।
- आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को अपना स्पष्ट समर्थन देता है, जबकि अज़रबैजान न केवल इसका विरोध करता है बल्कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के वक्तव्यों का समर्थन भी करता है।
- ["नेबरहुड फरसट"](#), ["एकट ईसट"](#) या ["भारत-मध्य एशिया वार्ता"](#) के विपरीत भारत में दक्षिण काकेशस के लिये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नीति का अभाव है।
- यह क्षेत्र अपनी विदेश नीति के रडार की परधि पर बना हुआ है

आगे की राह

- संघर्ष अनविरय रूप से दो अंतर्राष्ट्रीय सदिधांतों के बीच का एक संघर्ष है। क्षेत्रीय अखंडता का सदिधांत अज़रबैजान द्वारा समर्थित और आत्मनरिणय के अधिकार का सदिधांत नागोर्नो-करबख द्वारा लागू किया गया एवं आर्मेनिया द्वारा समर्थित है।
- भारत के पास अज़रबैजान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन नहीं करने के पर्याप्त कारण हैं क्योंकि अज़रबैजान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है।
- साथ ही भारत के लिये नागोर्नो करबख का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना मुश्किल है, जो भारत के लिये संभावित नतीजों को देखते हुए आत्मनरिणय के आधार पर सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भारत के विरोधी देश न केवल कश्मीर के साथ संबंध स्थापित कर इसका दुरुपयोग

कर सकते हैं, बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन को फरि से बढ़ावा दे सकते हैं ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/nagorno-karabakh-region>

